



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (I)
PART II—Section 3—Sub-section (I)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 174]

नई दिल्ली, मंगलवार, मई 12, 1981/वैशाख 22, 1903

No. 174]

NEW DELHI, TUESDAY, MAY 12, 1981/VAISAKHA 22, 1903

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन को रूप में
रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 मई, 1981

सं० 116/81-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क

65, 66 और 67 के अंतर्गत आने वाले माल को, उक्त विधिविधिम की धारा 49 की उपधारा (1) के अधीन उस पर उद्ग्रहणीय उतने विशेष उत्पादन शुल्क से छूट देती है जितना इस प्रकार प्रभावी उत्पाद-शुल्क के सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी की गई किसी अधिसूचना के साथ पठित केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) के अधीन ऐसे माल पर प्रभावी उत्पादन शुल्क की रकम के पांच प्रतिशत से अधिक है।

[फा० सं० बी० 21/14/81-टी० व्हा० नू०]

सा० का० वि० 326(ख) -- केन्द्रीय सरकार, वित्त अधिनियम, 1981 (1981 का 16) की धारा 49 की उपधारा (4) के साथ पठित केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं० 20/81-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 1 मार्च, 1981 को अधिसूचित करते हुए, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की पहली अनुसूची की मद सं० 1, 1-क, 1-ख, 1-ग, 1-घ, 1-ङ, 2(2), 4-II(1), 4-II(3), 4-II(4), 4-II(5), 4-II(6), 4-II(7), 10, 11, 11-क(1), 11-क(3), 11-क(4), 11-क(5), 11-ग, 12, 14, 14-क, 14-कक, 14-ख, 14-खख, 14-ग, 14-घ, 14-ङ, 14-च, 14-चख, 14-छ, 14-ज, 14-जज, 15, 15-क, 15-कक, 15-ख, 15-खख, 15-गग, 15-घ, 16-क, 16-ख, 17, 22-ग, 22-ङ, 22-छ, 23-क, 23-ख, 23-ग, 28-क, 29, 29-क, 30, 30-क, 30-ख, 31, 32, 33, 33-क, 33-ख, 33-ग, 33-घ, 33-ङ, 33-च, 34, 34-क, 34-ख, 36, 37-क, 37-कक, 37-ख, 37-ग, 40, 44, 45, 46, 48, 49, 50, 51, 51-क, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 60, 61, 62, 63, 64,

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 12th May, 1981

No. 116/81-CENTRAL EXCISES

G.S.R. 326(E).—In exercise of the Powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, read with sub-section (4) of section 49 of the Finance Act, 1981 (16 of 1981), and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Depart-

ment of Revenue) No. 20/81-Central Excises, dated the 1st March, 1981, the Central Government hereby exempts goods falling under Items Nos. 1, 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 2(2), 4II(1), 4II(3), 4II(4), 4II(5), 4II(6), 4II(7), 10, 11, 11A(1), 11A(3), 11A(4), 11A(5), 11C, 12, 14, 14A, 14AA, 14B, 14BB, 14C, 14D, 14DD, 14E, 14F, 14FF, 14G, 14H, 14HH, 15, 15A, 15AA, 15B, 15BB, 15CC, 15D, 16A, 16B, 17, 22C, 22E, 22G, 23A, 23B, 23C, 28A, 29, 29A, 30, 30A, 30B, 31, 33, 33A, 33B, 33C, 33D, 33DD, 33E, 33F, 34, 34A, 34B, 36, 37A, 37AA, 37B, 37C, 40, 44, 45, 46, 48, 49, 50, 51, 51A, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66 and 67 of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944), from so much of the special duty of excise leviable thereon under sub-section (1) of section 49 of the said Finance Act as is in excess of five per cent. of the amount of duty of excise chargeable on such goods under the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944), read with any notification issued by the Central Government in relation to the duty of excise so chargeable.

[F. No. B 21/14/81-TRU]

सं० 117/81-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क

सां०का०नि० 327(अ) —केन्द्रीय सरकार, वित्त अधिनियम, 1981 (1981 का 16) की धारा 49 की उपधारा (4) के साथ पठित केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उप-नियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने हुए, और भारत सरकार के वित्त मन्त्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं० 21/81-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 1 मार्च, 1981 को अधिकांश करने हुए, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की पहली अनुसूची की मद सं० 6, 7, 8, 9, 11-क (2), 11-ख, 13, 38 और 68 के अन्तर्गत आने वाले माल का, उक्त अधिनियम की धारा 49 की उपधारा (1) के अधीन उस पर उद्घाटनीय समस्त विशेष उत्पाद-शुल्क से छूट देती है।

[फा० सं० बी 21/14/81-टी०आर०यू०]

No. 117/81-CENTRAL EXCISES

G.S.R. 327(E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, read with sub-section (4) of section 49 of the Finance Act, 1981 (16 of 1981), and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 21/81-Central Excises, dated the 1st March, 1981, the Central Government hereby exempts goods falling under Items Nos. 6, 7, 8, 9, 11A(2), 11E, 13, 38 and 68 of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944), from the whole of the special duty of excise leviable thereon under sub-section (1) of section 49 of the said Finance Act.

[F. No. B 21/14/81-TRU]

सं० 118/81-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क

सां०का०नि० 328(अ) —केन्द्रीय सरकार, वित्त अधिनियम, 1981 (1981 का 16) की धारा 49 की उपधारा (4) के साथ पठित केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 12 और 12-क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने हुए और भारत सरकार के वित्त मन्त्रालय

(राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं० 22/81-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 1 मार्च, 1981 को अधिकांश करने हुए, यह निदेश देती है कि जहाँ कोई माल उक्त वित्त अधिनियम की धारा 49 की उपधारा (1) के अधीन विशेष उत्पाद शुल्क के अधीन किया गया है और जहाँ ऐसे माल का भारत के बाहर, किसी देश या राज्य क्षेत्र को जो नेपाल और भूटान से भिन्न हो निर्यात करने पर, यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार ने उक्त नियम 12 या नियम 12-क के अधीन किसी अधिसूचना द्वारा या केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड ने केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 191-क के अधीन घोषणा द्वारा, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) के अधीन ऐसे माल पर दिए गए उत्पाद-शुल्क पर कोई रिबेट दिए जाने की अनुज्ञा की है, वहाँ विशेष उत्पाद-शुल्क का रिबेट भी उन्हीं शर्तों के अधीन अनुज्ञा किया जाएगा जो शर्तें उत्पाद-शुल्क के रिबेट को लागू हैं।

[फा० सं० बी 21/14/81-टी०आर०यू०]

No. 118/81-CENTRAL EXCISE

G.S.R. 328(E).—In exercise of the powers conferred by rules 12 and 12A of the Central Excise Rules, 1944, read with sub-section (4) of section 49 of the Finance Act, 1981 (16 of 1981), and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 22/81-Central Excises, dated the 1st March, 1981, the Central Government hereby directs that where any goods have been subjected to a special duty of excise under sub-section (1) of section 49 of the said Finance Act and where on the export of such goods to any country or territory outside India, other than Nepal and Bhutan, the Central Government, by a notification under the said rule 12 or rule 12A, or the Central Board of Excise and Customs, by a declaration under rule 191A of the Central Excise Rules, 1944, as the case may be, has allowed a rebate of excise duty paid on such goods under the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944), a rebate of the special duty of excise shall also be allowed subject to the same conditions as govern the rebate of excise duty.

[F. No. B 21/14/81-TRU]

सं० 119/81-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क

सां०का०नि० 329(अ) —केन्द्रीय सरकार, वित्त अधिनियम, 1981 (1981 का 16) की धारा 49 की उपधारा (4) के साथ पठित केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 191-ख द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने हुए और भारत सरकार के वित्त मन्त्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं० 23/81-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 1 मार्च, 1981 को अधिकांश करने हुए, यह निदेश देती है कि जहाँ कोई माल उक्त वित्त अधिनियम की धारा 49 की उपधारा (1) के अधीन विशेष उत्पाद-शुल्क दिए जाने के दायित्वाधीन है, और जहाँ केन्द्रीय सरकार ने, उक्त नियम 191-ख के अधीन जारी की गई अधिसूचना द्वारा, ऐसे माल से बन्धपत्राधीन विनिर्दिष्ट वस्तुओं के विनिर्माण की अनुज्ञा दी है, वहाँ ऐसे माल से बन्धपत्राधीन ऐसी वस्तुओं का विनिर्माण भी पूर्वोक्त धारा के प्रयोजन के लिए उन्हीं शर्तों के अधीन अनुज्ञेय होगा जो शर्तें उक्त नियम 191-ख के अधीन ऐसे विनिर्माण को लागू हैं।

[फा० सं० बी 21/14/81-टी०आर०यू०]

टी०आर० कस्तुरी, प्रवक्ता सचिव

No. 119/81-CENTRAL EXCISES

G.S.R. 329(E).—In exercise of the powers conferred by rule 191B of Central Excise Rules, 1944, read with sub-section (4) of section 49 of the Finance Act, 1981 (16 of 1981), and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 23/81-Central Excises, dated the 1st March, 1981, the Central Government hereby directs that where any goods are liable to special duty of excise under sub-section (1) of section 49

of the said Finance Act and where the Central Government has, by a notification issued under the said rule 191B, permitted the manufacture of specified articles in bond from such goods, manufacture of such articles, in bond, from such goods shall also be permissible for the purpose of the aforesaid section subject to the same conditions as govern such manufacture under the said rule 191B.

[F. No. B21/14/81-TRU]
T. R. RUSTOGI, Under Secy.

